

वसितारति महाद्वीपीय शेल्व पर भारत का दावा


स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

भारत ने मध्य अरब सागर में अपने वसितारति महाद्वीपीय शेल्व में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर का वसितार किये जाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महाद्वीपीय शेल्व सीमा आयोग (CLCS) के समक्ष एक संशोधित दावा प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ जारी समुद्री विवाद से बचते हुए मूल्यवान समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है।

वसितारति महाद्वीपीय शेल्व क्या है?

- वसितारति महाद्वीपीय जलमग्न सीमा/शेल्व (ECS): UNCLOS के अंतर्गत महाद्वीपीय शेल्व में तटीय देश के प्रादेशिक समुद्र से परे ऐसे वसितारति पनडुबबी क्षेत्रों का समुद्र तल और अवमृदा शामिल है, जो या तो महाद्वीपीय सीमांकन के प्राकृतिक किनारे तक अथवा इसके आधार रेखाओं से 200 समुद्री मील तक, जो भी अधिक दूर हो, होता है।
 - वसितारति महाद्वीपीय शेल्व से तात्पर्य उस समुद्री क्षेत्र से है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की 200 समुद्री मील की सीमा से आगे वसितारति होता है और किसी देश के महाद्वीपीय शेल्व का वसितार होता है।
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ): भारत सहित तटीय राष्ट्र, अपनी तटरेखा से 200 समुद्री मील तक वसितारति अनन्य आर्थिक क्षेत्र के हकदार हैं।
 - इससे उन्हें मत्स्यन और समुद्र तल पर खनन सहित संसाधन नष्टिकरण के लिये विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र CLCS संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय (UNCLOS) के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।



वसितारति महाद्वीपीय शेल्व के संदर्भ में भारत का वर्तमान दावा क्या है?

- प्रारंभिक प्रस्तुति (2009): इस वर्ष भारत ने संयुक्त राष्ट्र CLCS में अपना ECS दावा प्रस्तुत किया, जिसमें बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के नश्चित भाग शामिल थे, तथा अपने EEZ से परे समुद्र तल पर अधिकार की मांग की गई थी।
- आपत्तियाँ और समीक्षा: वर्ष 2021 में, पाकिस्तान ने विवादित सर करीक क्षेत्र के पास 100 समुद्री मील के ओवरलैप का हवाला देते हुए पश्चिमी अरब सागर में भारत के दावे पर आपत्त जताई।
 - वर्ष 2023 में, CLCS ने अरब सागर में भारत के दावे को खारज़ कर दिया, लेकिन संशोधनों के साथ पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

- **संशोधति प्रस्तुतीकरण (वर्ष 2025):** भारत ने पश्चिमी अरब सागर प्रस्तुतीकरण को दो भागों में विभाजित करके अपने दावे को संशोधित किया, विवादित क्षेत्र को छोड़ दिया और मध्य अरब सागर में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर को जोड़ दिया।
 - इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य **खनजिर्, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और तेल भंडारों** से समृद्ध समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित करना है, जो भारत के आर्थिक हितों के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत के संशोधित प्रस्तुतीकरण की 64वें **CLCS** सत्र (अगस्त 2025) में समीक्षा की जाएगी, जिसमें **UNCLOS** के अनुच्छेद 76 के तहत सफाई की जाएगी।
 - **UNCLOS** का अनुच्छेद 76 महाद्वीपीय शelf को परिभाषित करता है और इसकी बाहरी सीमाओं के निर्धारण के लिये नियम स्थापित करता है।

नोट: अरब सागर में भारत का महाद्वीपीय शelf का दावा ओमान के साथ ओवरलैप है, लेकिन दोनों देशों के बीच वर्ष 2010 से एक समझौता है जिसमें कहा गया है कि सीमांकित न होने के बावजूद यह क्षेत्र "विवाद के अधीन नहीं" है।


- **भारत ने बंगाल की खाड़ी और हृदि महासागर** में 300,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा किया है, हालाँकि म्यांमार और श्रीलंका इसका विरोध करते हैं।

भारत के लिये विस्तारित महाद्वीपीय शelf का क्या महत्व है?

- **सामरिक नियंत्रण और समुद्री संप्रभुता:** भारत का समुद्र तल और उप-समुद्र तल क्षेत्र, इसके विस्तारित महाद्वीपीय शelf दावों से 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के जुड़ने के साथ, लगभग इसके 3.274 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के बराबर हो जाएगा, जिससे इसकी समुद्री संप्रभुता मजबूत होगी और इसकी सामरिक स्वायत्तता बढ़ेगी।
 - ECS अधिकारों का दावा करके भारत हृदि महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाता है, तथा समुद्री कूटनीति और संसाधन प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग में बड़ी भूमिका निभाता है।
- **आर्थिक विकास और नीली अर्थव्यवस्था:** ECS मत्स्य पालन, अपतटीय ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की संभावनाओं को खोलता है, जो भारत की **नीली अर्थव्यवस्था** के विकास में योगदान देता है।
- **वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय प्रबंधन:** भारत का दावा समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ वैश्विक पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप समुद्री संसाधनों के धारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

सर क्रीक

- यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में स्थित 96 किलोमीटर लंबी जल सट्रपि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है।
 - सर क्रीक भारत के कच्छ क्षेत्र और **पाकिस्तान के संधि प्रांत** को अलग करती है तथा अरब सागर से जुड़ती है।
- **सर क्रीक क्षेत्र** में अंतरराष्ट्रीय सीमा और भारत एवं पाकिस्तान के बीच **अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL)** का सीमांकन नहीं किया गया है।



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये इंडियन ओशन रमि एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR_ARC)' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2015)

1. इसकी स्थापना हाल ही में घटति समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधपिलाव (आयल स्पलिस) की दुर्घटनाओं के प्रतक्रियास्वरूप की गई है।
2. यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. वैश्वकि महासागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल की खोज और खनन के लिये लाइसेंस प्रदान करता है।
2. भारत को अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
3. 'दुर्लभ मृदा खनजि' अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल तल पर मौजूद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय जल में महासागरों के समुद्री गैर-जीवित संसाधनों की खोज और दोहन को वनियमिति करने के लिये स्थापति किया गया है। यह गहन समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन पर वचिार करता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है तथा खनन गतिविधियों की नगिरानी करता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- भारत वर्ष 1987 में 'पायनरि इन्वेस्टर' का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था और नोड्यूल की खोज के लिये भारत को मध्य हृदि महासागर बेसिन (CIOB) में लगभग 5 लाख वर्ग कमी. के क्षेत्र पर अनुमतपिरदान की गई थी। मध्य हृदि महासागर बेसिन में समुद्र तल से पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस की खोज करने के लिये भारत के वशिष अधकिारों को वर्ष 2017 में पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था। **अतः कथन 2 सही है।**
- दुर्लभ मृदा खनजि अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल पर पाए जाते हैं। वभिन्नि महासागरों के समुद्र तल में दुर्लभ-पृथ्वी खनजिों का दुनिया का सबसे बड़ा अपरयुक्त संग्रह है। **अतः कथन 3 सही है।**

अतः वकिल्प (b) सही है।

??????

प्रश्न. वशि्व में संसाधन संकट से नपिटने के लिये महासागरों के वभिन्नि संसाधनों, जनिका उपयोग किया जा सकता है, का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-extended-continental-shelf-claim>

